

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लोकल साझेदारों के साथ वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 मार्च, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, डाउनटाउन ब्रैम्पटन (Downtown Brampton) के लिए 12 महीने के वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम (Welcoming Streets Pilot Program) की शुरुआत के साथ, लगातार अपने डाउनटाउन में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है।

वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम का उद्देश्य, लोकल निवासियों और कारोबारियों की जरूरतों पर ध्यान देते हुए और सुरक्षा में सुधार करने में मदद करते हुए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में व्यक्तियों को योजनाबद्ध स्ट्रीट आउटरीच सेवाएं प्रदान करना है।

इस प्रोग्राम के द्वारा, “वेलकमिंग स्ट्रीट लीडर्स” (“Welcoming Streets Leaders”), डाउनटाउन ब्रैम्पटन के कारोबारियों की मदद करेंगे। लीडर्स उन स्थितियों में सहायता के लिए निवेदनों का जवाब देंगे, जिनके लिए पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) की मदद की जरूरत नहीं है, जैसे संकट में व्यक्ति, डाउनटाउन में रहने वाले व्यक्तियों से जुड़ना और रिश्ते बनाना तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक वे सहयोग सेवाएं पहुंचाना, जिनकी उन्हें जरूरत हो सकती है। लीडर्स, सिटी हॉल, 2 वेलिंग्टन स्ट्रीट वेस्ट (City Hall, 2 Wellington Street West) की निचली मंज़िल पर स्थित, डाउनटाउन ब्रैम्पटन प्रोजेक्ट्स सेंटर (Downtown Brampton Projects Centre) में मौजूद होंगे।

रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के मुताबिक, 2020 में पील में 4,566 लोग बेघर होने का अनुभव कर रहे थे। जून 2021 में, रीजन ऑफ पील ने प्रोग्राम के लिए 250,000 डॉलर की फंडिंग की मंजूरी दी। यह सिटी और रीजन ऑफ पील के बीच साझेदारी है, जिसकी हिमायत, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA), पील रीजनल पुलिस, रीजेनरेशन आउटरीच कम्युनिटी (Regeneration Outreach Community) और कैंनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन पील डफरिन (Canadian Mental Health Association Peel Dufferin) के द्वारा की गई है।

वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम के बारे में अधिक जानने के लिए, [brampton.ca/downtownbrampton](http://brampton.ca/downtownbrampton) पर जाएं।

### हवाले

“हमारे साझेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे, हम हमारे डाउनटाउन में सुधार करने में लगातार काफी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि यह हमारे कारोबारियों और निवासियों के लिए, एक सुरक्षित, भागीदारी वाली और उन्नतिशील जगह हो। वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम,

हमारे लोकल निवासियों और डाउनटाउन में स्थित कारोबारियों के लिए काफी बड़ी सहायता होगा। हम इस 12 महीने के पायलट प्रोग्राम के नतीजे देखने के लिए उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे डाउनटाउन ब्रैम्पटन के कारोबारी, कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और सिटी उनकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जब वे बहाली की तरफ बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। अधिक सुरक्षित और अधिक स्वस्थ जगहें बनाने के अवसरों में सुधार करके, हम हमारे डाउनटाउन को सभी के लिए अधिक स्वागत वाला बनाएंगे। वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम के साथ हमारी सहायता करने के लिए, हमारे साझेदारों का धन्यवाद।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एक स्वागत वाले और उन्नतिशील डाउनटाउन के लिए, पब्लिक सेफ्टी जरूरी है और सिटी, सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान देने के लिए हमारे कारोबारियों और निवासियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे साझेदारों के साथ मिलकर इकट्ठे, हम वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम डिलीवर करने और 12 महीनों की अवधि में नतीजों का मूल्यांकन करने के लिए उत्साहित हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी में, हम हमारे डाउनटाउन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे कारोबारी प्रगति कर पाएं और हमारे निवासियों के पास रहने, काम करने और खेलने के लिए, विस्तृत पब्लिक जगहें हों। इसमें सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम, संबंधित चिंताओं पर ध्यान देने और क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की हिमायत करने में हमारी मदद करेगा।”

- रिचर्ड फॉरवर्ड (Richard Forward), कमिश्नर, प्लानिंग, बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम, शानदार तालमेल का नतीजा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाउनटाउन, निवासियों और कारोबारियों के लिए अधिक स्वागत वाली जगह है, मुझे ब्रैम्पटन में इस पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की हिमायत करने पर खुशी है।”

- नान्डो ऐनिका (Nando Iannicca), रीजन ऑफ पील, रीजनल चेयर

“पील रीजनल पुलिस को वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की हिमायत करने पर खुशी है। हमने संकटग्रस्त और सहयोग सेवाओं के जरूरतमंद लोगों के साथ गैर-जरूरी बातचीत को कम करने में मदद के लिए, अपस्ट्रीम दृष्टिकोणों की हिमायत की है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तथा रीजन ऑफ पील के द्वारा यह पायलट प्रोजेक्ट, उन दृष्टिकोणों में से एक की मिसाल है। हम डाउनटाउन ब्रैम्पटन के स्वागत वाले वातावरण का विस्तार करने के लिए, हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं।”

- निशान डुरईअप्पा (Nishan Duraiappah), चीफ ऑफ पुलिस, पील रीजनल पुलिस

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए., वेलकमिंग स्ट्रीट्स पायलट प्रोग्राम शुरू होता देखकर बेहद उत्साहित है। यह प्रोग्राम, हमारे कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी सहायता प्रदान करेगा और डाउनटाउन ब्रैम्पटन को सभी के आनंद लेने के लिए, अधिक सुरक्षित और भागीदारी वाली जगह बनाने में मदद करेगा।”

- सूजी गॉडफ्रॉय (Suzy Godefroy), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.)

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)